

नागरिक चार्टर

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराकर एवं वर्गवार योग्यताक्रम में प्रदेश में चल रहे सभी पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु **“संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०,”** का गठन वर्ष 1986-87 में किया गया था। यह संस्था एक स्वशासी एवं स्ववित्त पोषित संस्था है तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है यह परिषद सोसाइटीज एक्ट-1860 के अधीन पंजीकृत है।
2. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का संचालन एवं नियन्त्रण अधिशासी समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० शासन अधिशासी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन पदेन निदेशक का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, में सचिव के पद पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष/प्रधानाचार्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है। अधिशासी समिति में कुल 17 सदस्य हैं, जिसमें प्राविधिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग, वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। अधिशासी समिति में सदस्य सचिव के दायित्वों का निर्वहन सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। परिषद में सचिव के अतिरिक्त उपसचिव का एक पद है, जिस पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात होते हैं।
3. शासन द्वारा निर्गत दिशा के निर्देशों के अनुसार अधिशासी समिति द्वारा कार्य संचालन हेतु मापदण्ड व प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
4. इस परिषद को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। परीक्षा के आवेदन पत्रों का मूल्य एवं परीक्षा शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि ही इस परिषद की आय का मुख्य स्रोत है। इसी आय से परिषद के समस्त व्यय वहन किये जाते हैं।
5. परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र का मूल्य सामान्य के लिए रु० 400/- व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रु० 250/- निर्धारित है।

6. परिषद की गवर्निंग बाडी/अधिशारी समिति :-

- | | |
|--|------------------|
| 1. श्री नीरज कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजेश कुमार सिंह,
निदेशक, स0प्र0प0/विशेष सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य एवं निदेशक |
| 3. श्री ए0 के0 विश्वेश
विशेष सचिव, न्यायविभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 4. श्री विद्या सागर शुक्ल,
विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 5. श्री ओ.पी. वर्मा
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर | सदस्य |
| 6. श्रीमती आनन्देश्वरी अवस्थी
संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग,
नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 7. श्री जे0 पी0 सैनी,
प्राचार्य,
मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज, गोरखपुर | सदस्य |
| 8. डा0 रघुराज सिंह,
प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस विभाग, एच.बी.टी.आई., कानपुर | सदस्य |
| 9. प्रो0 एन0के0 शर्मा
प्रोफेसर, आई.एम.ई.
आई0 आई0 टी0, कानपुर | सदस्य |
| 10. प्रो0 डी.एन. कक्कड़,
निदेशक,
आई0 ई0 टी0, लखनऊ | सदस्य |
| 11. श्री कफील अहमद,
निदेशक,
शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर | सदस्य |
| 12. श्री आर. के. वर्मा
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ, | सदस्य |
| 13. श्री जी0एस0 राय
प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ, | सदस्य |

14. श्री आर.पी. शर्मा,
प्रधानाचार्य, फिरोजगांधी पाली0,
रायबरेली,

15. श्री योगेन्द्र सिंह यादव
सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद

सदस्य—सचिव

7. परिषद के कार्य :-

1. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराना।
2. प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर योग्यता क्रम एवं मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन काउन्सलिंग के द्वारा किया जाता है।

8. संस्था के पदाधिकारियों के नाम व दूरभाष संख्या :-

क्र0	पद	नाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष आवास
I.	अध्यक्ष	श्री नीरज कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा	0522-2237616	
II.	निदेशक	श्री राजेश कुमार सिंह विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	0522-2630099	
III.	सचिव	श्री योगेन्द्र सिंह यादव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद	0522-2630099	-
IV.	उपसचिव	डॉ0 एस0 पी0 सिंह, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद	0522-2630667 8005493525	

9. परिषद कार्यालय में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध हैं।

10. शासन द्वारा विभिन्न आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र, प्रवेश क्षमता, संस्थाओं की सूची परिषद की वेबसाइट www.jeecup.org पर उपलब्ध करा दी गई है।

11. जन सूचना अधिकारी का विवरण :-

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदनाम	कार्यालय का पता एवं फोन नम्बर	आवास का पता एवं फोन नम्बर
1.	श्री योगेन्द्र सिंह यादव, सचिव	अपीलीय अधिकारी	संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ फोन नं० 0522-2630099	संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिसर, 1-गुरुगोविन्द सिंह मार्ग उ०प्र०, लखनऊ
2.	डॉ० एस० पी० सिंह, उपसचिव	जनसूचना अधिकारी	संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ फोन नं० 0522-2630099 8005493525	एफ-105, मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3.	श्री हरीराम कार्यालय अधीक्षक	सहायक जनसूचना अधिकारी	फोन नं० 0522-2630106	63/3 अशोक बिहार आलम नगर, लखनऊ

12. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा परिषद से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण का कार्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कार्य को सुगमतापूर्वक सम्पादित करने के लिए परिषद को निम्न अनुभागों में अन्तरविभाजित किया जाता है जिनके कार्यों का विवरण भी उल्लेखित है :-

1. सामान्य अनुभाग

- I. कार्यालय का सुपरविजन सम्बन्धी कार्य
- II. परीक्षा प्रश्न-पत्रों/उत्तर-चार्टों का रखरखाव एवं बैगिंग कराने तथा जोनल अधिकारियों को हस्तगत कराने परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात वापस आने वाली सामग्री की प्राप्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य कराना।
- III. परीक्षा सम्बन्धी अन्य सौंपे गये कार्यों को निस्तारित कराने का कार्य।
- IV. डिस्पैच अनुभाग में व्यय होने वाली टिकटों की पंजिका के सत्यापन सम्बन्धी कार्य।
- V. परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का संस्थावार आवंटन की पत्रावलियां हस्तगत करने सम्बन्धी कार्य।
- VI. प्रवेशित छात्रों की सूचना तैयार करने सम्बन्धी कार्य।
- VII. शासन/निदेशालय द्वारा बांछित सूचनाएं तैयार करने का कार्य।

- VIII. शासनादेश के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता का लेखा-जोखा रखना।
- IX. कार्यालय के कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश का हिसाब रखना।
- X. चयनित/आवंटित अभ्यर्थियों की विभिन्न त्रुटि पूर्ण समस्याओं का निराकरण करना।
- XI. सूचना का अधिकार अधिनियम-05 के प्राप्त पत्रों का निस्तारण सम्बन्धी कार्य।
- XII. संस्थाओं की मान्यता सम्बन्धी पत्राचार करना।

2. परीक्षा अनुभाग-1

- I. जोनल अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं से स्टाफ सूची मांगने का कार्य।
- II. जोनल अधिकारियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों, केन्द्र अधिकारियों के निर्धारण की सूची मांगने का कार्य।
- III. केन्द्रों का निर्धारण एवं क्षमता के अनुसार अभ्यर्थियों का आवंटन करने सम्बन्धी कार्य।
- IV. परीक्षा केन्द्रों की जनपदवार सूची कम्प्यूटर सेन्टर को हस्तगत कराने सम्बन्धी कार्य।
- V. पंजीकृत अभ्यर्थियों का हिसाब रखना।
- VI. जोनल अधिकारियों, केन्द्र अधिकारियों एवं केन्द्र अधीक्षकों को नियुक्त पत्र प्रेषित करने सम्बन्धी कार्य।
- VII. उड़ाका दल के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्य।
- VIII. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्य।
- IX. प्रयुक्त उत्तर चार्टों की प्राप्ति एवं मूल्यांकन केन्द्रों को प्रेषण कराने सम्बन्धी कार्य।
- X. शासन द्वारा प्राप्त पत्रों का निस्तारण करने का कार्य।

3. अधिष्ठान अनुभाग

- I. कार्यालय के स्थापना/अधिष्ठान का कार्य (व्यक्तिगत पत्रावलियां, सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव)
- II. परिषद का पंजीकरण, नवीनीकरण एवं सदस्यों का नामांकन।

- III. निजीक्षेत्र की संस्थाओं की स्थापना सम्बद्धता, निरीक्षण व फीस से सम्बन्धित कार्य।
- IV. विज्ञापन सम्बन्धी समस्त कार्य कराना।
- V. परिषद की बैठकों का आयोजन निर्णयों का कार्यान्वयन।
- VI. परीक्षा की गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रूप से गन्तब्य तक ले जाने हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था, शासन/स्थानीय पुलिस के माध्यम से कराना।
- VII. कोर्टकेसों की पैरवी का कार्य।
- VIII. विधान सभा, विधान परिषद प्रश्नों का उत्तर प्रेषित करना।
- IX. परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस की व्यवस्था व कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कराने हेतु शासन/गृह विभाग को आदेश जारी कराना।
- X. कार्यालय में विद्युत सम्बन्धी कार्य, बिलों का सत्यापन भुगतान टेलीफोनों के अनुरक्षण तथा बिलों के भुगतान हेतु लेखा को हस्तगत कराना।
- XI. कार्यालय की फोटो कापियर मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीन, जरनेटर आदि के बिलों को सत्यापित कर भुगतान हेतु लेखानुभाग में प्रस्तुत करना।
- XII. कार्यालय के पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य का रख-रखाव करना। परिषद कार्यालय के भवन अनुरक्षण सुरक्षा एवं सफाई सम्बन्धी व अन्य कार्य कराना।

4. निर्गमन अनुभाग

- I. कार्यालय से निर्गत होने वाले पत्रों को डिस्पैच करने का कार्य।
- II. कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति तथा सम्बन्धित अनुभागों में वितरण।
- III. व्यय होने वाले टिकटों का लेखा-जोखा रखना।
- IV. ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव व आगंतुको को आवंटन तथा प्राप्त धनराशि का हिसाब रखना।
- V. परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्रों के निर्गमन कार्य का लेखा-जोखा रखना।

5. मुद्रण कार्य अनुभाग

- I. परीक्षा प्रयोगार्थ आवेदन-पत्रों का मुद्रण कराने हेतु मांग-पत्र के अनुसार पत्रावलियां स्टोर को प्रस्तुत करना।

- II. आवेदन-पत्रों एवं विवरण-पुस्तिकाओं में वांछित संशोधन, प्रूफरीडिंग के उपरान्त पुनः स्टोर में मुद्रण हेतु प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्य।
- III. मुद्रित आवेदन-पत्रों एवं विवरण पुस्तिकाओं के रख-रखाव सम्बन्ध कार्य।
- IV. आवेदन-पत्रों को विक्रयकर्ता संस्थाओं में प्रेषण सम्बन्धी कार्य।
- V. आवेदन-पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा रखना तथा बैंक ड्राफ्टों को लेखानुभाग में हस्तगत करने सम्बन्धी कार्य।
- VI. निजी क्षेत्र की संस्थाओं को खोलने से सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का विक्रय व लेखा-जोखा रखना।
- VII. परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों की जांच/संशोधन (प्रूफरीडिंग) करके मुद्रण कराने की कार्यवाही हेतु स्टोर को उपलब्ध कराना।
- VIII. मुद्रण के पश्चात जोनल अधिकारियों/केन्द्र अधीक्षकों के लिफाफे तैयार करना तथा हस्तगत कराना।
- IX. एन.आर.आई.पी.टी. इलाहाबाद की संस्था में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धी कार्य कराना।
- X. संस्थाओं की मान्यता से सम्बन्धित कार्य (ए.आई.सी.टी.ई. व पी.सी.आई.से पत्राचार)

6. परीक्षा अनुभाग-2

- I. विक्रयकर्ता संस्थाओं में अभ्यर्थियों द्वारा भरे/जमा किये गये आवेदन-पत्रों को परिषद कार्यालय में प्राप्ति सम्बन्धी कार्य कराना।
- II. प्राप्त आवेदन-पत्रों का रख रखाव एवं लेखा-जोखा सम्बन्धी कार्य।
- III. प्राप्त आवेदन-पत्रों की जनपदवार एवं ग्रुप वार तथा कैटगरीवार जाँच सम्बन्धी कार्य कराना।
- IV. परिषद कार्यालय में प्राप्त भरे हुए आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर सेन्टर को हस्तगत कराने सम्बन्धी कार्य।
- V. अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र निर्गत कराने सम्बन्धी कार्य।
- VI. त्रुटि पूर्ण आवेदन-पत्रों पर पत्राचार करके निस्तारण करने सम्बन्धी कार्य।
- VII. परीक्षा अनुभाग परिषद कार्यालय के अन्य अनुभागों के अधिक समय तक रखने वाले महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा पत्रावलियों के रिकार्ड रखने सम्बन्धी कार्य।

7. स्टोर प्रभारी

- I. कार्यालय के स्टोर सम्बन्धी समस्त कार्य।
- II. आवेदन-पत्रों तथा विवरण पुस्तिकाओं का मुद्रण कराने सम्बन्धी कार्य।
- III. परीक्षा के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों का मुद्रण कराना।
- IV. बिना बिके आवेदन-पत्रों एवं विवरण पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने सम्बन्धी कार्य।
- V. प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त (प्रश्न-पत्रों) आदि को सुरक्षित रख-रखाव करना।
- VI. समय सीमा के अनुसार (उत्तर-चार्ट, प्रश्न-पत्रों एवं आवेदन-पत्रों) की रद्दी के विक्रय सम्बन्धी कार्य।
- VII. स्टोर में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी सम्बन्धी कार्य।
- VIII. शासन स्तर पर उपलब्ध कराई गयी सामग्री कम्प्यूटर, फोटोस्टेट
- IX. मशीन का रख-रखाव एवं अनुरक्षण इत्यादि सम्बन्धी कार्य।
- X. परिषद में उपलब्ध समस्त मशीनों, साज-सज्जा, कम्प्यूटर, जरनेटर आदि का अनुरक्षण कार्य।

8. कार्यालय का लेखानुभाग

- I. कार्यालय में लेखा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण कराना स्टाफ वेतन बिल का कार्य, अधिकारियों की पेंशन अंशदान भेजना, मदवार वार्षिक आय व्यय तैयार करना। परिषद के लेखों का आडिट कराना। आडिट आपत्तियों का निराकरण कराना। जोनल अधिकारियों के बिलों का समायोजन, निजी क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त निरीक्षण/सम्बद्धता शुल्क जमा करना व रख रखाव सम्बन्धी कार्य।
- II. धर्मदास द्वारा आवेदन-पत्रों की बिक्री से प्राप्त ड्राफ्टों को पंजिका में अंकित कर कौश को देना।
- III. ई.पी.एफ. के वार्षिक प्रपत्र तैयार कर जमा कराने सम्बन्धी कार्य।
- IV. वार्षिक वेतन विवरण तैयार करना।
- V. कौशियर का कार्य, चेक बुक, कौश बुक का रख-रखाव, कौश बुक भरना, संस्थाओं को भुगतान हेतु ड्राफ्ट तैयार कर भिजवाना। एफ.डीआर. का रखरखाव जनरल की पोस्टिंग व लेजर की पोस्टिंग सम्बन्धी कार्य।
- VI. तिमाही आयकर (टी.डी.एस.) रिटर्न जमा करना एवं फार्म नं० जारी करना।

- VII. बैंक खातों का मिलान सभी व्ययों का मासिक विवरण तैयार कराना, जी.पी.एफ. व ई.पी.एफ. कटौतियों को राजकोश में जमा कराना।
- VIII. ई0पी0एफ0 अशंदान का (मासिक) रजिस्टर तैयार करना।
- IX. कार्यालय के समस्त वाहनों का अनुरक्षण देखरेख, डीजल, पेट्रोल की व्यवस्था का कार्य व इनसे सम्बन्धित बिल पारित कराकर भुगतान की कार्यवाही करना।
- X. सभी प्रकार के पारिश्रमिक बिलों को पारित कराने, पोस्टिंग, कन्टिजेन्सी बिल पारित कराकर भुगतान की कार्यवाही करने सम्बन्धी कार्य।
- XI. वार्षिक वेतन विवरण तैयार करने सम्बन्धी कार्य, जनरल की पोस्टिंग व लेजर पोस्टिंग सम्बन्धी कार्य।
- XII. परिषद कार्यालय में प्राप्त संस्थाओं के विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा बीजकों का सत्यापन तथा जाँच करने के उपरान्त लेखा को भुगतान हेतु कन्ट्रोल रजिस्टर पर दर्ज कर हस्तगत कराना।

13. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ में कुल स्वीकृत पद एवं कार्यरत स्टाफ:-

क्र.सं.	पदनाम				
1.	क वर्ग	सचिव	15,600-39,100	6600	श्री योगेन्द्र सिंह यादव
2.	ख वर्ग	उपसचिव सहा0लेखाधिकारी	15,600-39,100 15,600-39,100	5400	डॉ0 एस0 पी0 सिंह, श्री मनोज
3.	ग वर्ग	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	4200	श्री हरी राम
4.		सहा.कार्या.अधीक्षक	9300-34800	4200	श्री चन्द्र किशोर
5.		ज्येष्ठ सहा.गोपनीय	9300-34800	4200	(1) श्री खुशीराम
			9300-34800	4200	(2) श्री सुरेन्द्र सिंह
			5200-20200	2800	(3) श्रीमती निशा शुक्ला
		5200-20200	2800	(4) श्री हरीश चन्द्र	
		5200-20200	2800	(5) श्री धर्मदास	
6.		कनिष्ठ सहायक	5200-20200 5200-20200	2000 2000	(1) श्री जगदीश चन्द्र (2) प्रदीप मौर्या
7.		लेखाकार	9300-34800	4200	श्री सै0सागर मेंहदी
8.		सहायक लेखाकार	9300-34800	4200	श्री कमल प्रकाश शुक्ला

9.		क० लेखालिपिक	5200-20200	2400	(1) श्री दिनकर
10.		क० लेखालिपिक	5200-20200	1900	(2) श्री अशोक कुमार वर्मा
11		आशुलिपिक	-----	---	(2) रिक्त
12.		कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	2000	(1) रिक्त
			5200-20200	1900	(2) श्री विजय कुमार यादव
			5200-20200	1900	(3) श्री राजेश श्रीवास्तव
			5200-20200	1900	(4) श्री गंगाराम
			5200-20200	1900	(5) श्री विनोद कुमार आर्य
13.		स्टोर कीपर	5200-20200	1900	रिक्त
14.		चालक	5200-20200	2400	(1) श्री नरसिंह सचान
			5200-20200	2000	(2) श्री देवी लाल
			5200-20200	1900	(3) श्री बजरंग
15.	घ वर्ग	दफ्तरी	5200-20200	2000	श्री रामसेवक तिवारी
		मशीन मैन	4440-7440	1800	श्री रमाकान्त त्रिपाठी
		चपरासी	4440-7440	1800	(1) श्री शिव नरायन
			4440-7440	1800	(2) श्री सज्जन
			-तदैव-	1800	(3) श्री सुरेश
			-तदैव-	1800	(4) राकेश पाठक
			-तदैव-	1800	(5) श्रीमती सुमन
			-तदैव-	1800	(6) नन्के
		स्टोर पियून	4440-7440	1800	श्री अवध नरायन
		चौकीदार	4440-7440	1800	(1) श्री रमाशंकर दुबे
			4440-7440	1800	(2) श्री राजू

14. निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व :-

प्रचलित व्यवस्थानुसार संस्थान के विभिन्न कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यों से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी बनाये जाते हैं। जिनके माध्यम से सम्बन्धित कार्य के प्रस्तावों को सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त कर परीक्षण कर पत्रावलियों पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं एवं नियमानुसार सम्बन्धित स्वीकृति आदि प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है इस सम्बन्ध में विभिन्न अवसरों पर विशिष्ट निर्णय लिये जाने की स्वीकृति आदि प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है इस सम्बन्ध में विभिन्न अवसरों पर विशिष्ट निर्णय लिये जाने हेतु आवश्यकतानुसार समितियों का गठन किया जाता है। उनकी बैठके आयोजित कर संस्तुति प्राप्त की जाती है एवं तदनुसार निर्णय लिये जाते हैं।

सम्बन्धित प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। समस्त अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण परिषद के सचिव द्वारा किया जाता है।

परिषद में होने वाले विभिन्न कार्यों के सम्पादन में सम्बन्धित कर्मचारी उनके अधिकारी एवं परिषद के सचिव का उत्तरदायित्व होता है।

परिषद के अन्तर्गत गठित विभिन्न अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है कि वह अपने से सम्बन्धित कार्य का प्रस्तुतीकरण समयान्तर्गत सुनिश्चित करें, तत्पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों/प्रस्तावों पर सम्बन्धित अधिकारी/सचिव के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

सम्बन्धित अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि अपने अधीन कर्मचारियों से उनको किये गये आवंटित कार्य को नियमानुसार/समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही कराये तथा उनके कार्यों का निरन्तर पर्यवेक्षण भी किया जाय।

परिषद के सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि परिषद में संपादित होने वाले विभिन्न कार्यकलापों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से समयान्तर्गत नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित हो एवं अपने अधीन समस्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता रहे।

15. विभिन्न कार्य कलापों हेतु रखे जाने वाले रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्स्ट्रक्शन

मैनुअल एवं रिकार्ड :-

परिषद के कार्य कलापों के सम्पादन में प्रचलित वित्तीय हस्त पुस्तिका, शासन द्वारा निर्गमित विभिन्न सेवा नियमावलियों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का संग्रह एवं कार्यकारी आदेशों का अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों के सम्पादन में उपयोग किया जाता है।

16. परिषद में रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेख :-

परिषद के विभिन्न कार्यों हेतु अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है यथा-भण्डार के अन्तर्गत विभिन्न स्टाक बुकें, क्रय सम्बन्धित पत्रावलियों, स्थापना कार्यों हेतु कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों, सेवापुस्तिकायें, अवकाश लेखा अभिलेख, डायरी डिस्पैच रजिस्टर, गार्ड फाइल, सेवा से सम्बन्धित अन्य पत्रावलियों, लेखा कार्य हेतु विभिन्न कैशबुक बिल रजिस्टर, टी0ए0 बिल रजिस्टर, ई0पी0एफ0 लेजर, जी0पी0एफ0 पासबुकें, गार्ड रजिस्टर, कन्टीजेन्ट रजिस्टर, बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर, लेखा सम्बन्धी पत्रावलियों वाहन की लॉग बुक तथा पत्रावलियों, डीजल जरनेटर का रजिस्टर व लागबुक।

परिषद के नीति निर्धारण अथवा प्रशासन में जनता का कोई योगदान नहीं होता है।

परिषद में कोई ऐसी समिति या बोर्ड का गठन नहीं है जो जनता के लिये खुली है।